

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) के लिए आमंत्रण

विषय : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न स्थलों पर सेमिनार, कार्यशालाओं एवं प्रदर्शनी आदि के लिए कार्यक्रम प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी का पैनल तैयार करना।

भारत निर्वाचन आयोग, आयोग में और विभिन्न स्थलों पर संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि हेतु पूर्ण कार्यक्रम प्रबंधन तथा संभारतंत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए पैनल तैयार करने के लिए बहुत ही अनुभवी एवं वित्तीय रूप से ठोस कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसियों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित करता है।

कार्यक्षेत्र :

1. मंचों, बैठने के इंतजामों, नामपट्ट आदि की व्यवस्था करना।
2. बैक ड्रॉप, होर्डिंग, साइनेज, बैजेज, दिशा का संकेत देने वाले पैनलों, पंजीकरण काउंटरों आदि की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग एवं उन्हें लगाना।
3. श्रव्य-दृश्य प्रणालियां - प्रोजेक्टरों, स्क्रीन साउंड सिस्टम, माइक, कार्यवाहियों की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग, विडियोग्राफी, फोटोग्राफी
4. कम्प्रेसर, यूसर (पुरुष/महिला), इंटरप्राइजेज आदि की सेवाएं प्रदान करना।
5. क्यू मैनेजर सेट्स, लैप-ऑप, लेजर प्रिंटर सहित कंप्यूटरों, ऑपरेटर सहित फोटोकॉपीयर मशीनों की आपूर्ति।
6. कार्यक्रम का प्रलेखन।

शॉर्टलिस्ट करना :

एजेंसियों के इसी प्रकार की परियोजनाओं को प्रचालित करने, उनकी जनशक्ति की शक्ति और फर्म की वित्तीय शक्ति के विगत के अनुभव के आधार पर उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित वेटेज का प्रयोग किया जाएगा :-

| क्र. सं. | मानदंड | वेटेज |
|----------|---|---------------|
| 1 | एजेंसी का विगत का अनुभव | 60 अंक |
| | • अनुभव के वर्षों की सं. | 10 |
| | • समान प्रकृति के कार्य के प्रचालन संबंधी विगत का अनुभव | 30 |
| | • सरकारी संगठन के साथ समान प्रकृति के कार्य के प्रचालन संबंधी विगत का अनुभव | 15 |
| | • टीम के सदस्यों का अनुभव | 5 |
| 2 | एजेंसी की वित्तीय शक्ति | 20 अंक |
| | • पिछले तीन वर्षों के लिए टर्न ओवर आंकड़े | 10 |
| | • पिछले तीन वर्षों के लिए निवल लाभ आंकड़े | 10 |

शर्तें:

1. यह एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए केवल एक आमंत्रण है, केवल चयनित एजेंसियों को ही पैनल में शामिल किए जाने के लिए उनकी प्रास्थिति का मूल्यांकन करने के बाद उनकी तकनीकी एवं वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा।
2. एजेंसियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा कवर किए गए प्रमुख कार्यक्रम तथा प्रोफाइल की प्रस्तुति करने के लिए भी बुलाया जा सकता है।
3. केवल ऐसी एजेंसियों को बुलाया जाएगा जो भारत में पंजीकृत हैं और जिनके नई दिल्ली में स्थापित कार्यालय हैं।
4. आवेदन अधोहस्ताक्षरी को **30** अगस्त, **2016** को अपराह्न **3.00** बजे तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए और आवेदन के उपर "कार्यक्रम प्रबंधन सेवाओं के लिए एजेंसी का पैनल तैयार करना" लिखा जाना चाहिए।
5. भारत निर्वाचन आयोग को, कोई कारण बताए बिना, किसी या सभी अभिरूचि की अभिव्यक्तियों (ई ओ आई) को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार होगा।

(राहुल शर्मा)

सचिव

ई-मेल : rahulsharma.eci@gmail.com

दूरभाष : 011-23052070